



# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

4 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 721 राँची, गुरुवार,

26 जुलाई, 2018 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशानिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

-----  
संकल्प

3 जुलाई, 2018

संख्या- 5/आरोप-1-184/2017-909 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्रीमती नीतू कुमारी, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर, प० सिंहभूम, चाईबासा, सम्प्रति-अंचल अधिकारी, कटकमसांडी, हजारीबाग के विरुद्ध श्रीमती रूबीना परबीन, पति-स्व० अख्तर जमाल, वार्ड नं०-1, चक्रधरपुर द्वारा दाखिल-खारिज हेतु समर्पित आवेदन को समय-सीमा में निष्पादन नहीं करने तथा रिश्वत की माँग करने संबंधी आरोप, जैसा कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-4844(9)/रा०, दिनांक 25 सितम्बर, 2017 के माध्यम से उपायुक्त, प० सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक-1654/गो०, दिनांक 30 अगस्त, 2017 द्वारा गठित आरोप प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	NITU KUMARI 110033265458	श्रीमती कुमारी के विरुद्ध उक्त प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्रीमती कुमारी को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।
4. श्रीमती कुमारी द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।
5. श्रीमती कुमारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, प० सिंहभूम, चाईबासा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।
6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव पर सरकार का आदेश प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**सतीश कुमार जायसवाल,**

सरकार के उप सचिव

जीपीएफ संख्या:ROH/RVP/1007

-----